

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1112
रविवार, 20 सितंबर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट

1112. श्री सी.एम. रमेश:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों समेत और अधिक पर्यटन सर्किट खोलने तथा मौजूदा पर्यटन सर्किटों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ख) क्या सरकार का इस उद्देश्य के लिए आगामी वर्षों में और अधिक निधि आवंटित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): पर्यटक स्थलों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' नामक योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय ने आध्यात्मिक, रामायण, कृष्ण, बौद्ध तथा तीर्थकर थीमों, जिनमें आध्यात्मिक स्थल भी शामिल हैं, को कवर करते हुए समग्र पर्यटन विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। प्रशाद योजना का उद्देश्य अभिज्ञात किए गए तीर्थस्थानों और विरासत गंतव्यों का समग्र विकास करना है।

आध्यात्मिक, रामायण, कृष्ण, बौद्ध तथा तीर्थकर थीमों को कवर करते हुए स्वदेश दर्शन परियोजनाओं की सूची और प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट के संबंध में दिनांक 20.09.2020 को राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1112 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

आध्यात्मिक, रामायण, कृष्ण, बौद्ध एवं तीर्थकर थीमों को कवर करते हुए स्वदेश दर्शन परियोजनाओं की सूची

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परिपथ का नाम एवं स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	पथानमथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के तहत सबरीमाला - एरुमेली-पंपा-सन्निधानम का विकास	99.99
2.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	श्री गोविन्दजी मंदिर, श्री बिजयगोविंदजी मंदिर - श्री गोपीनाथ मंदिर - श्री बंगशीबदन मंदिर - श्री कैना मंदिर का विकास	53.80
3.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	श्री पद्मनाभ मंदिर, अरनमुला- सबरीमाला का विकास	92.22
4.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	कांवरिया मार्ग: सुल्तानगंज- मोजमा- बांका का समेकित विकास	52.35
5.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	आध्यात्मिक परिपथ का विकास-। (शाहजहाँपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसा- प्रतापगढ़-उन्नाव- कौशाम्बी- मिर्जापुर-गोरखपुर-कैराना- डूमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आज़मगढ़) का विकास	65.61
6.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ (2016-17)	बिजनौर- मेरठ- कानपुर- कानपुर देहात- गाज़ीपुर- सलेमपुर- बलिया- अंबेडकरनगर- अलीगढ़- फतेहपुर- देवरिया- महोबा- सोनभद्र- चंदौली- मिश्रीख- भदोही का विकास	67.51
7.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	चूरू (सालासरबालाजी) - जयपुर (श्री समोदाबालाजी, घाटकेबालाजी, बांधेके बालाजी)	93.90

		(2016-17)	अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरथरी) - विराटनगर (बिजाक, जैन्नलिया, अंबिका मंदिर) - भरतपुर (कामन क्षेत्र) - धौलपुर (मुचकुंद)- मेहंदीपुर बालाजी- चित्तौड़गढ़ (सांवलियाजी) का विकास	
8.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ (2017-18)	कराईकल, यनम और पुदुचेरी का विकास	40.68
9.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ (2017-18)	मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास ।	47.52
10.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ (2018-19)	वाकी - अडासा- धपेवाड़ा- परदसिंगा- छोटा ताजबाग- तेलनखंडी- गिराड़ का विकास	54.01
11.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ (2018-19)	जेवर-दादरी-सिकंद्राबाद -नोएडा-खुर्जा-बांदा का विकास।	12.03
12.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ (2018-19)	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपाटन मंदिर (बलरामपुर) और वटवाशनी मंदिर (डोमरियागंज) का विकास	15.76
13.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ (2018-19)	शिवगिरी श्रीनारायण गुरु आश्रम- अरुविपुरम - कुन्नुमपारा श्रीसुब्रह्मणिया- चेंबज़न्थी श्रीनारायण गुरुकुलम का विकास	69.47
14.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ (2016-17)	चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का विकास	69.45
15.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ (2017-18)	अयोध्या का विकास	127.21
16.	हरियाणा	कृष्ण परिपथ (2016-17)	कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर संहित सरोवर,नरकटारी, ज्योतिसर में पर्यटन अवसंरचना का विकास।	97.35
17.	राजस्थान	कृष्ण परिपथ (2016-17)	गोविंददेवजी मंदिर (जयपुर), खाटूश्यामजी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	75.80

18.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ (2016-17)	सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार का विकास	74.02
19.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ (2016-17)	श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	99.97
20.	बिहार	बौद्ध परिपथ (2016-17)	बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	98.73
21.	गुजरात	बौद्ध परिपथ (2017-18)	जूनागढ़ - गिर सोमनाथ-भरूच-कच्छ-भावनगर- राजकोट- मेहसाणा का विकास	28.67
22.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ (2017-18)	आंध्र प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के तहत : शालीहंडम-थोटलकोंडा-बाविकोंडा- बोज्जन कोंडा- अमरावती- अनूप का विकास	52.34
23.	बिहार	तीर्थकर परिपथ (2016-17)	वैशाली - आरा- मसद-पटना- राजगीर- पावापुरी- चंपापुरी का विकास	52.39

प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	परियोजना लागत
1.	आंध्र प्रदेश	1.	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	2015-16	22.77
		2.	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45
2.	असम	3.	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और इसके आसपास - तीर्थ गंतव्य का विकास	2015-16	30.71
3.	बिहार	4.	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27
		5.	पटना साहिब का विकास	2015-16	41.54
4.	गुजरात	6.	द्वारका का विकास	2016-17	13.08
		7.	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2016-17	45.36
		8.	सोमनाथ में प्रोमेनाड का विकास	2018-19	44.59
5.	हरियाणा	9.	पंचकुला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता	2019-20	49.52

			मंसा देवी मंदिर का विकास		
6.	जम्मू एवं कश्मीर	10.	हजरतबल का विकास	2016-17	40.46
7.	झारखण्ड	11.	वैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13
8.	केरल	12.	गुरुवयूर मंदिर का विकास	2016-17	46.14
9.	मध्य प्रदेश	13.	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	44.83
10.	महाराष्ट्र	14.	त्रियंबकेश्वर का विकास	2017-18	37.81
11.	नागालैंड	15.	नागालैंड में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2018-19	25.26
12.	ओडिशा	16.	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथधाम - रामचंडी देवली में प्राची रिबर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00
13.	पंजाब	17.	अमृतसर में करूणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास	2015-16	6.40
14.	राजस्थान	18.	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	32.64
15.	तमिलनाडु	19.	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99
		20.	वेल्लांकनी का विकास	2016-17	4.86
16.	उत्तराखण्ड	21.	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.78
		22.	बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखण्ड) में तीर्थयात्रा सुविधा हेतु अवसंरचना विकास	2018-19	39.24
17.	उत्तर प्रदेश	23.	मेगा पर्यटक परिपथ के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	14.93
		24.	वृंदावन जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36
		25.	वाराणसी का विकास	2015-16	20.40
		26.	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72
		27.	वाराणसी का विकास	2017-18	44.60
		28.	गोवर्धन, मथुरा का विकास	2018-19	39.74
18.	पश्चिम बंगाल	29.	बेलूर का विकास	2016-17	30.03
19.	मेघालय	30.	मेघालय में तीर्थ यात्रा सुविधाओं का विकास	2020-21	29.32
